



HAMIRPUR POLICE



थाना जरिया

दिनांक 04.02.2023

**02 कुन्तल 05 किलो 480 ग्राम अवैध गांजा, कीमत
लगभग 25,00,000/- रूपए(पच्चीस लाख रुपये) व गांजा
तरकारी में प्रयोग एक अदद मोटर साइकिल के साथ 02
अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2022 को गस्त के दौरान थाना जरिया पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की चन्द्रशेखर के ट्यूबेल के पुलिया के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी अपराध को कारित करने की फिराक में खड़े हैं, एवं उनके पास कुछ बोरियों में सामान है। जिन्हें वह मोटर साइकिल पर रख रहे हैं, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पास बहद ग्राम बीरा से भागने का प्रयास कर रहे दो व्यक्तियों 1.)इन्तजार खान पुत्र जमील निवासी ग्राम नरायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर उम्र 36 वर्ष 2.)अनिल सिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम रूरीपारा थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर उम्र 32 वर्ष को मौके पर हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा कुछ व्यक्ति मौके से भाग गये, हिरासत में लिये गये अभियुक्तों से बरामद बोरियों के बारे में पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि अलग अलग 07 बोरियों में गांजा रखा हुआ है। बरामद गांजा कुल वजन 02 कुन्तल 05 किलो 480 ग्राम था दोनो व्यक्तियों से पूछताछ करने पर बताया की हम लोगो के साथ 04 व्यक्ति और भी थे, जिनमें से दो व्यक्तियों का नाम हम जानते हैं। दो व्यक्तियों के नाम क्रमशः शीबू खान पुत्र अब्दुल कादिर निवासी वार्ड नं0 52 झण्डा चौक के पास संतोषी नगर थाना टिकरा पारा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ मूल निवासी ग्राम नारायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर व रवि कुमार अहिरवार पुत्र घनश्याम निवासी ईदगाह के पीछे चमरौडा मुहल्ला ग्राम नरायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर है। तथा दो व्यक्ति अज्ञात थे, जिनका नाम पता हम लोग नहीं जानते उनका नाम व पता शीबू खान ही जानता है, शीबू मूल रूप से थाना मौदहा क्षेत्र का रहने वाला है। तथा काफी समय से रायपुर, छत्तीसगढ़ में रह कर मादक पदार्थों का अवैध कारोबार कर रहा है, इस सम्बन्ध में थाना जरिया में मु0अ0सं0 37/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता:-

1. इन्तजार खान पुत्र जमील निवासी ग्राम नरायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर उम्र 36 वर्ष
2. अनिल सिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम रूरीपारा थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर उम्र 32 वर्ष

घटना में फरार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1. शीबू खान पुत्र अब्दुल कादिर निवासी वार्ड नं0 52 झण्डा चौक के पास संतोषी नगर थाना टिकरा पारा जिला रायपुर छत्तीसगढ मूल निवासी ग्राम नारायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
- 2. रवि कुमार अहिरवार पुत्र घनश्याम निवासी ईदगाह के पीछे चमरौडा मुहल्ला ग्राम नारायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
- 3. दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात

➤ अभियुक्तों से बरामदगी:-

- 1.02 कुन्तल 05 किलो 480 ग्राम गाँजा (अनुमानित कीमत 25,00,000/- लाख रु)
2. एक मोटर साइकिल
3. दो मोबाइल फोन

➤ बरामद गाँजा की कुल अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र0 निरीक्षक जरिया बृजमोहन
2. उ0 नि0 देवेन्द्र कुमार
3. उ0 नि0 दिनेश सिंह
4. हे0 का0 शिवेन्द्र सिंह
5. हे0 का0 कमलकान्त

9. हे0 का0 उदयभानु प्रताप
7. हे0 का0 रविकान्त पाल
8. का0 राकेश कुमार
9. का0 संजीव कुमार
10. का0 भूपेन्द्र निरंजन

